



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र 1940 (श०)

(सं० पटना 278) पटना, सोमवार 26 मार्च 2018

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

20 मार्च 2018

सं० 2/वन विविध-13/16-926/प0व0—अररिया शहर से लगभग 20 कि०मी० उत्तर-पश्चिम पर अरहा मदारगंज सुरक्षित वन अवस्थित है। राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०—सी०एफ०—17025/67—2113—आ०, दिनांक 22 जुलाई, 1967 द्वारा अरहा मदारगंज सुरक्षित वन अधिसूचित है, जिसका रकबा 259.11 एकड़ है। यह क्षेत्र हिमालय तराई का नम साल वन क्षेत्र का भाग रहा है। परंतु अत्यधिक बायोटिक प्रेशर एवं अन्य कारणों से यह वन क्षतिग्रस्त हो गया था। सरकार द्वारा विगत कुछ वर्षों से इस वन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वन क्षेत्र के हरित आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी तक यह अपने मूल स्वरूप में नहीं आ सका है।

इसी वन क्षेत्र की मिट्टी में पैदा हुए एवं पले-बढ़े महान हिन्दी साहित्यकार फणीश्वरनाथ “रेणु” का नाम इस वन से जोड़ कर समीपवर्ती ग्राम के लोगो में इस वन के प्रति लगाव एवं जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा अरहा मदारगंज सुरक्षित वन का नाम “रेणु वन” किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के आलोक में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से अररिया जिलान्तर्गत अरहा मदारगंज सुरक्षित वन “रेणु वन” के नाम से जाना जाएगा।

3. इस अधिसूचित वन क्षेत्र में संदर्भित वन अधिनियम प्रभावी रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रत्नेश झा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 278-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>